



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 17—नवम्बर 23, 2013, शनिवार/कार्तिक 26—अग्रहायण 2, 1935
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 17—NOVEMBER 23, 2013, SATURDAY/KARTIKA 26—AGRAHAYANA 2, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 263.—संविधान की धारा 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मौलिक नियमावली, 1922 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियमों का निर्माण करते हैं, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को मौलिक (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. मौलिक नियमावली, 1922 के नियम 29 में धारा (2) को निम्नलिखित धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(2) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को दंडात्मक कार्यवाही के अनुसार निचली सेवा, ग्रेड अथवा पद पर निचले वेतनमानों पर लाया जाता है, उस प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश जारी किया है, को विनिर्दिष्ट करना होगा :—

(क) वह अवधि जिसके लिए निचला स्तर प्रभावी होगा ; और

(ख) क्या पुनः स्थापना पर निचले स्तर की अवधि भावी वेतन वृद्धियों की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित करेगी, यदि ऐसा है तो किस सीमा तक

(3) सरकारी सेवक की उच्च सेवा ग्रेड या पद पर पुनः स्थापना पर उसे अपनी उच्च सेवा या पद पर जिस सेवा ग्रेड या पद जिससे उसे निचले स्तर पर किया गया था की मौलिक वरिष्ठता प्राप्त करेगा।”

[फा. सं. 6/2/2013-स्था.(वेतन-1)]

मुकेश चतुर्वेदी, उप-सचिव

टिप्पणी - मुख्य नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा 1 जनवरी, 1922 से लागू किए गए तथा बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए :

1. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2(क)-स्था. III/61 दिनांक 01-02-1963 जीएसआर नं. 253 दिनांक 09-02-1963
2. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(1)-स्था. III(क)/65 दिनांक 20-01-1965 जीएसआर नं. 415 दिनांक 13-03-1963
3. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. III(क)/64 दिनांक 30-11-1965 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
4. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.1(25)-स्था. III(क)/64 दिनांक 01-10-1966 जीएसआर नं. 1582 दिनांक 15-10-1966
5. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(3)-स्था. III(क)/64 दिनांक 18-07-1967 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
6. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(6)-स्था. III(क)/68 दिनांक 26-04-1968 जीएसआर नं. 896 दिनांक 18-05-1968
7. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. III(क)/64 दिनांक 27-05-1970 जीएसआर नं. 1337 दिनांक 12-09-1970
8. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. IV(क)/70 दिनांक 29-01-1971 जीएसआर नं. 178 दिनांक 06-02-1971
9. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.6(2)-स्था. III(बी)/68 दिनांक 20-03-1971 जीएसआर नं. 481 दिनांक 03-04-1971
10. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.6(28)-स्था. III(बी)/68 दिनांक 13-12-1971 जीएसआर नं. 61 दिनांक 01-01-1972
11. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(9)-स्था. III(क)/74 दिनांक 30-10-1974 जीएसआर नं. 1208 दिनांक 16-11-1974
12. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(6)-पी.यू./79 दिनांक 13-11-1979 जीएसआर नं. 1449 दिनांक 08-12-1979
13. कार्मिक विभाग की ए.आर.अधिसूचना सं. एफ.1(8)-पी.यू./80 दिनांक 29-01-1981 जीएसआर नं. 154 दिनांक 14-02-1981
14. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/9/79-स्था.(वेतन-I) दिनांक 06-10-1983 जीएसआर नं. 4102 दिनांक 12-11-1983
15. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) दिनांक 17-08-1984 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) दिनांक 24-09-1985 जीएसआर नं. 950 दिनांक 12-10-1985
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 11/1/85-स्था.(वेतन-I) दिनांक 24-04-1986 जीएसआर नं. 335 दिनांक 10-05-1986
18. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 4/17/88-स्था.(वेतन-II) दिनांक 23-06-1989 जीएसआर नं. 477 दिनांक 15-07-1989
19. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) दिनांक 30-08-1989 जीएसआर नं. 679 दिनांक 16-09-1989
20. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) दिनांक 28-11-1990 जीएसआर नं. 744 दिनांक 15-12-1990
21. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 4/3/97-स्था.(वेतन-II) दिनांक 12-03-1999 जीएसआर नं. 208 दिनांक 15-03-1999
22. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 13/6/95-स्था.(वेतन-I) दिनांक 10-08-2000 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
23. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 1/6/97-स्था.(वेतन-I) दिनांक 30-01-2001 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।
24. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 4/1/2009-स्था.(वेतन-II) दिनांक 21-01-2010 जीएसआर नं. उपलब्ध नहीं है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 27th October, 2013

G.S.R. 263.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely:-

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. In the Fundamental Rules, 1922 in rule 29, for clause (2), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(2) If a Government servant is reduced as a measure of penalty to a lower service, grade or post or to a lower scale, the authority ordering the reduction shall specify —

(a) the period for which the reduction shall be effective; and

(b) whether, on restoration, the period of reduction shall operate to postpone future increments and, if so, to what extent.

(3) The Government servant shall regain his original seniority in the higher service, grade or post on his restoration to the service, grade or post from which he was reduced".

[F. No. 6/2/2013-Estt. (Pay-1)]

MUKESH CHATURVEDI, Dy. Secy.

Note. - The principal rules were published in Official Gazette and came into force with effect from 1st January, 1922 and were subsequently amended vide:

1. Ministry of Finance Notification No. 2(a)-E. III/61 dated 1.02.1963 GSR No.253 dated 9.02.1963.
2. Ministry of Finance Notification No. 1(1)-E. III (A)/65 dated 20.01.1965 GSR No. 415 dated 13.03.1965.
3. Ministry of Finance Notification No. 1(25)-E. III(A)/64 dated 30.11.1965 GSR No. not available.
4. Ministry of Finance Notification No. F.1 (25)-E. III(A)/64 dated 1.10.1966 GSR No. 1582 dated 15.10.1966.
5. Ministry of Finance Notification No. 1 (3)-E. III(A)/64 Pt. II dated 18.7.1967 GSR No. not available.
6. Ministry of Finance Notification No. 1(6)-E. III(A)/68 dated 26.04.1968 GSR No. 896 dated 18.5.1968.
7. Ministry of Finance Notification No. 1(25)-E. I II(A)/64 dated 27.05.1970 GSR No.1337 dated 12.09.1970.
8. Ministry of Finance Notification No. 18(13)-E. IV(A)/70 dated 29.01.1971 GSR No.178 dated 6.02.1971.
9. Ministry of Finance Notification No. F. 6(2)-E. III(B)/68 dated 20.3.1971 GSR No.481 dated 3.4.1971.
10. Ministry of Finance Notification No. F. 6(28)-E. III(B)/68 dated 23.12.1971 GSR No.61 dated 01.01.1972.
11. Ministry of Finance Notification No. 1(9)-E. III(A)/74 dated 30.10.1974 GSR No.1208 dated 16.11.1974.
12. Ministry of Home Affairs Notification No. 1(6)-P.U.1/79 dated 23.11.1979 GSR No.1449 dated 08.12.1979.
13. Department of Personnel & A. R. Notification No. F. 1(8)-P.U.1/80 dated 29.1.1981 GSR No.154 dated 14.2.1981.
14. Ministry of Home Affairs Notification No.1 /9/79-Estt(Pay-I) dated 6.10.1983 S.O.No. 4102 dated 12.11.1983.
15. Ministry of Home Affairs Notification No. 13/5/84-Estt(Pay-I) dated 17.8.1984 GSR No. not available.

16. Department of Personnel & Training Notification No.13/5/84-Estt(Pay-I) dated 24.9.1985 GSR No. 950 dated 12.10.85.
17. Department of Personnel & Training Notification No. 11/1/85-Estt(Pay-I) dated 24.04.1986 GSR No. 335 dated 10.5.1986.
18. Department of Personnel & Training Notification No. 4/17/88-.Estt(Pay-II) dated 23.6.1989 GSR No. 477 dated 15th July, 1989.
19. Department of Personnel & Training Notification No.1/10/89-Estt(Pay-II) dated 30.8.1989 GSR No.679 dated 16.09.1989.
20. Department of Personnel & Training Notification No.1/10/89-Estt(Pay-I) dated 28.11.1990 GSR No.744 dated 15.12.1990.
21. Department of Personnel & Training Notification No.4/3/97-Estt(Pay-II) dated 12.3.1999 GSR No.208(E) dated 15.3.1999.
22. Department of Personnel & Training Notification No.13/6/95-Estt(Pay-I) dated 10.8.2000 GSR No. not available.
23. Department of Personnel & Training Notification No.1/6/97-Estt(Pay-I) dated 30.01.2001. GSR No. not available.
24. Department of Personnel & Training Notification No. 4/1/2009-Estt(Pay-I) dated 21.01.2010 GSR No. not available.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 264.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियम, 2013 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1989 में अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-II

[नियम 2(2) (च) और (ट), 3(3), 5(1) और 8 देखें]

भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह 'क' सेवा (सिविलियन स्ट्रीम)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ समय-मान (उप अधीक्षण सर्वेक्षण)	42* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क'), राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600-39100) रु. +ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के वर्ष, की 1 जनवरी को 21 और 30 वर्ष के बीच अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित। टिप्पण : सरकार द्वारा समय-समय

(6)

प

र

जारी निदेशों अथवा आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

(क) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन घोषित मानित विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में स्नातक

लागू नहीं होता

दो वर्ष

या

(ख) इंजीनियरों की संस्था (भारत) संस्थागत परीक्षा का खंड क और ख (सिविल इंजीनियरी) में उत्तीर्ण

या

(ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अथवा संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा डिप्लोमा और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर मान्यता दी जा सकती है और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य अर्हताएं।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

(12)

(13)

विभागीय पुष्टिकरण समिति

(सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

1. भारत के महासर्वेक्षक —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य
3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य

[मिसिल सं. एसएम/01/09/2011]

लता गोपाकुमार, अवर सचिव

टिप्पण :- दिनांक 26 मई, 1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रधान नियम प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् दिनांक 14/25 सितम्बर, 1990, 21 फरवरी, 1991, दिनांक 11 नवम्बर, 1991, 12 फरवरी, 1992, 28 अक्टूबर, 1992 का सा.का.नि. 637 और दिनांक 24 अप्रैल, 2009 का सा.का.नि. 59 की अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 12th November, 2013

G.S.R. 264.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Survey of India (Group 'A') Services Rules, 1989, namely :-

1. (1) These rules may be called the Survey of India (Group 'A') Services (Amendment) Rules, 2013

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Survey of India (Group 'A') Services Rules, 1989, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE II

[See Rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1) and 8]

Survey of India Group 'A' Service (Civilian Stream)

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Time Scale (Deputy Superintending Surveyor)	42* *Subject to variation dependent	General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs.15600—39100) and Grade Pay	Not applicable	Between 21 and 30 years as on 1st January of the year of Indian Engineering Service Examination or as

(6)		
on workload.	Rs. 5400	advertised by Union Public Service Commission. Note : Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Government from time to time.
<hr/>		
Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(A) Degree in Civil Engineering from a University incorporated by any Central or State Act or any other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); or (B) Pass in section A and B (Civil Engineering) of the Institution examinations of the Institution of Engineers (India) ; or (C) Degree/Diploma in Civil Engineering from such Foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time and such other qualifications as prescribed by Union Public Service Commission for Engineering Services Examination.	Not applicable	Two years
<hr/>		
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	
(10)	(11)	
Direct Recruitment on the basis of the Engineering Services Examination held	Not applicable	

by Union Public Service Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Departmental Confirmation Committee (For confirmation of direct recruits) consisting of :

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1. Surveyor General of India —Chairman
2. Joint Secretary, Department of Science and Technology —Member
3. Joint Secretary, Ministry of Defence —Member

[F. No. SM/01/09/2011]

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

Note : — The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number G.S.R. 437 dated 26th day of May, 1989 and subsequently amended vide Notifications dated 14th/25th September, 1990, 21st February, 1991, G.S.R. 673 dated 11th November, 1991, 12th February, 1992, 28th October, 1992 and G.S.R. 59 dated 24th April, 2009.